



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 300 राँची, सोमवार,

19 मार्च, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

14 मार्च, 2018

संख्या-8/गठन/114/2017/न०वि०आ० -1535-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-2007, 2012) की धारा-3 की उपधारा-(1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल धनबाद जिला के निरसा अंचल अन्तर्गत 07 पंचायत क्षेत्रों के 03 राजस्व ग्राम यथा-शिवलीबाड़ी, मेढ़ा एवं एग्यारकुण्ड की कुल जनसंख्या-36388 होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (शिवलीबाड़ी नगर पंचायत) के रूप में घोषित करने संबंधी "प्रारूप आदेश" निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर शिवलीबाड़ी नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, धनबाद के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) (स), धारा-4, 5, 6, 8 एवं धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ धनबाद जिला के निरसा अंचल क्षेत्र के 05 पंचायत अन्तर्गत 03 राजस्व ग्राम यथा-निरसा, भमाल एवं भालजोड़िया राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची

जनसंख्या सहित अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से शिवलीबाड़ी नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हैं ।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, धनबाद के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, धनबाद द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की धारा-3 की उपधारा-(1), (2) धारा-4, 5, 6, 8 तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ धनबाद जिला के निरसा अंचल अन्तर्गत 07 पंचायत क्षेत्रों के 03 राजस्व ग्राम यथा-शिवलीबाड़ी, मेढ़ा एवं एग्यारकुण्ड (जनसंख्या सहित अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (शिवलीबाड़ी नगर पंचायत) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अनुलग्नक-I
झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
शिवलीबाड़ी नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-344/सा०, दिनांक 8 फरवरी, 2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में धनबाद जिलान्तर्गत शिवलीबाड़ी नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले 03 राजस्व ग्राम की सूची निम्नवत है:-

निकाय का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)
शिवलीबाड़ी नगर पंचायत	शिवलीबाड़ी	236	36388	4964.25
	मेढ़ा	251		
	एग्यारकुण्ड	237		

शिवलीबाड़ी नगर पंचायत एक झलक में :-

.1	शिवलीबाड़ी नगर पंचायत की जनसंख्या	36388
.2	जनसंख्या का घनत्व	4964.25 (प्रति वर्ग कि०मी०)
.3	शिवलीबाड़ी नगर पंचायत का क्षेत्रफल	7.33 वर्ग कि०मी०

ह०/-

(प्रधान सचिव)

नगर विकास एवं आवास
विभाग।
